

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Regd. Office: Lotus Green City, Sector 23 & 24 Bhiwadi, Alwar Bypass, 75 Mtr. Road, Dharuhera Rewari, Haryana-123401, Tel.: 91-7419885077 E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com, Website: www.newtimeinfra.in CIN: L24239HR1984PLC040797

Ref No.: NIL/BSE/27/2023-24 Date: 07/09/2023

To,

The Manager BSE Limited, Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

BSE SECURITY CODE: 531959

<u>Subject: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of the Newspaper Advertisement, published today i.e. Thursday 07th September, 2023, in English Daily Newspaper ("Financial Express") and Hindi Daily Newspaper ("Jansatta") for giving Notice of the 39th Annual General Meeting of the Members of the Company to be held on Saturday, September 30, 2023 at 1:00 p.m. (IST) at the registered office of the company at along with remote e-voting details.

We request you to take the above information on record and oblige.

Thanking You,

For Newtime Infrastructure Limited

Raj Singh Poonia (CFO & Director) DIN: 09615705

Enclosed as stated above

Share Transfer Agent.

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Lotus Green City Sector 23 & 24, Bhiwadi Alwar Bypass 75 Mtr. Road, Dharuhera

Rewari HR 123401 IN

CIN: L24239HR1984PLC040797

Phone: +91-7419885077; E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com; Website: www.newtimeinfra.in

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Newtime Infrastructure

Limited ("Company") will be held on Saturday 30th September, 2023 at 1.00 p.m.(IST) at the registered office

of the company at Lotus Green City Sector 23 & 24, Bhiwadi Alwar Bypass 75 MTR. Road Dharuhera Rewari

123401 to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. In compliance with all the

applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and

Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read

with General circular dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021,

May 05, 2022 and December 28, 2022 and various other circulars related thereto (collectively referred to as

"MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/

CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May

13. 2022 and Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023, issued by the Securities

and Exchange Board of India (Collectively referred to as "the SEBI Circulars"), the Company has sent the

Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 on Wednesday, 6th September,

2023, through electronic mode only, to those members whose email address are registered with the depository

participants or with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Registrars &

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with, Rule 20 of

the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and substituted by Companies

(Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities And Exchange

Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased

to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 39th

Annual General Meeting (AGM) by electronic means ('remote e-voting'). The facility for online voting through

electronic means shall also be made available at the AGM and Members who have already cast their votes

through electronic mode during the schedule voting period prior to the date of the meeting will not be entitled

for online voting as on the date of the AGM. The Company has engaged the services of Central Depository

Services (India) Limited (hereinafter referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility. The

The remote e-voting period commences on Wednesday, 27th September, 2023 (9:00 AM IST) and ends

on Friday, 29th September, 2023 (5:00 PM IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL

Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with

person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners

maintained by the Depositories as on the cut-off date of Saturday, the 23rd September, 2023 shall be

entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means.

Any Person who have acquired shares and became member after the dispatch of the Notice of the AGM

but before the 'Cut-off Date' may obtain their user ID and Password for e-voting from the Company's

Registrars & Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Beetal House,

3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Center, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062,

Tel: 011-29961281-83, Email: investor@beetalfinancial.com. However, if the member is already registered

with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her exiting user ID and password for casting the

Further the board of Directors of the Company has appointed M/s AASK & Associates LLP having LLPIN:

AAD-2934 for scrutinizing the remote e-voting process as well as voting during the AGM in fair and

Transparent Manner. The result of remote e-voting and voting during the AGM shall be declared not

later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The declared results along with Scrutinizer's Report

shall be place on the website of the Company at www.newtimeinfra.in and on the website of the Bombay

Members who have not registered their email are requested to register the same in the respect of the

shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participants and in respect

of the shares held in physical form be written to Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s.

The Notice of AGM and the Annual Report for the year 2022-23 are accessible on the company's website

at www.newtimeinfra.in, the CDSL website at www.evotingindia.com, and the BSE website at

For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section 'Notes' in Notice

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also join in the meeting

through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (OAVM) but shall not be entitled to cast their

If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to

For Newtime Infrastructure Limited

Year ended

31.03.2023

Audited

28,542.35

6,645.31

6.645.31

6,506.77

165.39

165.39

(11.36)

6,660.80

13,182.26

(38,028.14)

16,646.72

4.55

4.55

37,552.76

(8,199.15)

1,23,479.49

346.61

(15.06)

689.08

NA

NA

Rai SinghPoonia

DIN: 09615705

(Rs. In Million)

Year ended

31.03.2022

Audited

28,100.88

11,068.89

11,068.89

10,989.83

54.65

50.75

5.58

11,046.16

13,182.26

(43,699.81)

15,824.38

7.01

7.01

37,552.76

(14,693.17)

1,26,161.22

346.61

(8.59)

689.08

NA

NA

Chairman & Director

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular,

instructions for joining the AGM, the manner of the casting vote through Remote e-voting or through e-voting

IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Registered office: Unit # 101, First Floor, ABW Rectangle - 1, Saket District Centre,

Saket, New Delhi -110017 | CIN-U40300DL2007PLC163679

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023.

Particulars

Net Profit for the year (before tax and exceptional Items) from

Net Profit for the year before tax (after exceptional items) from

Net profit for the year after tax (after exceptional item) from

Net Profit for the year (before tax and exceptional Items) from

Net Profit for the year (after tax and exceptional Items) from

Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Balance

Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com.

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited at investor@beetalfinancial.com.

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43.

of the 39th Annual General Meeting.

vote again through online voting.

during the AGM.

Place: Haryana

Date: 07.09.2023

Total Income from operations

continuing operations

continuing operations

continuing operations

discontinuing operations

discontinuing operations

Non-Controlling Interest

13 | Securities Premium Account

18 | Capital Redemption Reserve

19 Debenture Redemption Reserve

12 | Earnings Per Share

15 | Paid Up Debt Capital

17 Debt Equity Ratio

(a) Basic:

(b) Diluted:

14 Net Worth

Notes:

Share Capital

Other Comprehensive income

Total Comprehensive income for the year

16 Outstanding Redeemable Preference Shares

20 Debt Service Coverage Ratio (refer note 3)

21 Interest Service coverage Ratio (refer note 3)

(Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended.

details pursuant to the provisions of the Act and Rules are given hereunder:

FINANCIAL EXPRESS

Bhilwara Spinners Limited

Corporate Identity Number (CIN) L17115RJ1980PLC008217 Registered Office: 26 Industrial Area, Gandhi Nagar, Bhilwara 311 001 (Rajasthan) Phone: + 91-1482-246601 Fax +91-1482-246461

E-mail: bhilspinbs@gmail.com, Web. www.bhilspin.com NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 22nd day of September, 2023 at 11:00 A.M at the registered office of the Company at 26, Industrial Area Gandhi Nagar, Bhilwara-311001, Rajasthan to transact the business set out in the Notice of AGM. In compliance MCA Circulars and SEBI, the Notice of 42nd Annual General Meeting and detailed

instructions and information relating to e-voting, together with Annual Report of the company for the Financial Year 2022-2023 has been e-mailed to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company/RTA/Depositories. The dispatch of the Annual Report together with the Notice of the AGM only through electronic Mode has been completed on 03 September, 2023. Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the company i.e. www.bhilspin.com and from the website of stock

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided electronic voting facility for transacting all the business items as mentioned in Notice of 42nd Annual General Meeting through e-voting facility on the platform of National Security Depository Services Limited (NDSL). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, 19th September, 2023 at 9.00 A.M. and will end on Thursday, 21st September, 2023 at 5:00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e., 15th September, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

Any person who has acquired shares and become members of the Company after dispatch of notice may obtain the user ID and password for remote e-voting from the Company's Registrar & Transfer agents, M/s. MCS Share Transfer Agent Limited, F-65,Okhla Industrial Estate, Pase-1 New Delhi 110020. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on NSDL's website www.evoting.nsdl.com.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot paper. The result of e-voting shall be announced on or after the Annual General Meeting of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of NSDL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com_under help section or write an email to helpdesk.evoting@ndsl.com or contact at 1800- 1020-990 and 1800224430, All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to National Security Depository Services Limited, helpdesk.evoting@nsdl.com or call on 1800102090

Further Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 2023 to Friday, September 22, 2023 (both days inclusive).

> By order of the Board for Bhilwara Spinners Limited Anjail Jain Company Secretary

Date: 06-09-2023 Place: Bhilwara (Rajasthan) ACS43429

> PANAFIC INDUSTRIALS LIMITED CIN: L45202DL1985PLC019746

Regd. Off: 23, II Floor, North West Avenue, Club Road, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

E-Mail: panafic.industrials@gmail.com, **Website:** www.panaficindustrialsltd.com **Tel. No.:** (011) 25223461, 25221200 NOTICE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Panafic Industrials Ltd. will be held on Saturday, September 30, 2023 at 10.00 A.M. at the registered office of the Company at 23, IInd Floor, North West Avenue, Club Road, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026.

The Company sent the Notice of AGM alongwith Annual Report for the F.Y. 2022-23 on September 7, 2023 through electronic mode to Shareholders whose e-mail addresses are registered with RTA/ Company/ Depository in accordance with the Circular issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI.

The notice of 38th Annual General Meeting Annual Report 2022-23 together with Notice, Explanatory Statement etc. is available on the Company's website www.panaficindustrialsltd.com and the websites of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of the Company's

RTA at www.skylinerta.com. **BOOK CLOSURE:** NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that pursuant to Section 91 of the Companies Act,

2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ncluding Amendment Rules, 2015 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 24, 2023 to Saturday, September 30, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ncluding Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company has made available remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to all the Shareholders to cast their votes.

The Shareholders holding shares in physical or dematerialised (demat) form as on the cut-off date i. e. Friday, September 22, 2023 may cast their vote through electronic means remote e-voting) as well as voting through physical ballot at the venue of the AGM. A member may participate in the 38th AGM even after exercising his right to vote through

remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the 38th AGM. The Company is also providing the voting through physical ballot at the venue of the AGM to those Shareholders who will be present in the AGM and have not cast their vote through emote e-voting. The detailed information including procedure thereof, has been provided

The remote e-voting period begins on Tuesday, September 26, 2023 at 9.00 a.m. and ends on Friday, September 29, 2023 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled hereafter. n case of any queries/grievances in respect of e-voting may be addressed to CDSL at Ph.

1800-200-55-33 or its Email-id:helpdesk.evoting@cdslindia.com with a copy to the undersigned at panafic.industrials@gmail.com for prompt attention. For Panafic Industrials Limited

Place: Delhi Date: 06/09/2023

Sarita Gupta **Managing Director** DIN: 00113099

YORK EXPORTS LIMITED CIN: L74899DL1983PLC015416

Regd. Office: D-6 Diwan Shree Apartments, 30 Ferozeshah Road, NEW DELHI-110001

Email: admin@yorkexports.in, Website: www.yorkexports.in

NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING DETAILS

Votice is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the Members of York Exports Limited is scheduled to be held on Saturday, 30th September, 2023 at S-115, Shakarpur, Delhi-92 at 09.00 a.m. in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with all the Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated December 28, 2022, May 5, 2022, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13,

2020 and April 8, 2020 and SEBI Circulars dated January 05, 2023, May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 (collectively referred to as "relevant circulars"), to ransact the business set out in the Notice calling the AGM. In compliance to the above circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report for the F.Y. 2022-23 have been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.yorkexports.in and on the website of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com. Notice of AGM is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The remote e-voting window will open at 10.00 A.M. on 27th September, 2023 and closed at 05.00 P.M. on 29th September, 2023. The remote e-voting module will be disabled after the above time line by CDSL and E-

voting shall not be allowed thereafter. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-

off date i.e 23th September, 2023, may cast their vote electronically through electronic voting system of the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as well as voting through ballot at the AGM on the businesses as set out in the Notice of AGM. Any person who has not registered his email address with the company, respective

depository or Registrar can get the same registered in the manner as specified in the notice of 41st Annual General Meeting. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after email of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date i.e.

23th September, 2023, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request at beetalrta@gmail.com. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.

The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-

voting shall be able to exercise the right at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote again. Further pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act 2013 and

Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015 with stock exchange(s), the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Sunday, 24th September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (Both days inclusive for the said AGM). A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting. Any query/grievance connecting with voting by electronic means, should be addressed

to the Company Secretary at email address yorkexportsindia@gmail.com.

For YORK EXPORTS LIMITED (ASHWANI DHAWAN) **Managing Director** DIN: 00264986

Nidhi Services Limited CIN: L65999DL1984PLC018077 Regd. Add: 5/19-B, Roop Nagar, Delhi - 110007 NOTICE FOR E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, 29th September, 2023 at 11.00 A.M at **5/19-B, Roop Nagar, Delhi – 110007** to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM Notice is also given under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the

The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM and the Annual Report for the year 2022-23. The communication relating to remote e-voting has been dispatched to the members. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014,as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, remote e-voting facility has been made available to the members to exercise their ight to vote. The Company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility The details of the remote e-voting are as under:

Date and time of commencement of remote E-voting: 26th September, 2023 at 09.00 a.m.

Date and time of end of remote E-voting: 28" September, 2023 at 5.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond this 28th September, 2023, (5.00 p.m.)

to Friday, 29" September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Cut-off date: 22nd September, 2023 A member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote

through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting

Notice of the Annual General Meeting has been displayed on the web site of the Company www.nidhiservicesltd.com and on website of e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited i.e. http://evotingindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, write an email to nidhiservicesItd@gmail.com or contact Mr. Udit Agarwal on telephone no. 011-43215145

> By Order of the Board of Directors For Nidhi Services Limited Udit Agarwal

Date: 05th September, 2023

(RAJEEV ARORA) Place: New Delhi Date: 06.09.2023

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED **Corporate Office:** Chola Crest C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa

Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005. POSSESSION NOTICE

Under Rule 8 (1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited ,under

the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the

respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 3 of the Rules made there under. The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges.

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

NAME AND ADDRESS OF APPLICANT DETAILS OF & LOAN ACCOUNT NUMBER PROPERTY POSSESSED [B] [C] [D] All that piece and parcel of the property with Entire First Floor without roof rights of Property No. C-1/26, area measuring 50 sq.yds out of Loan A/c No. X0HEDHE00001033896) 1. NIZAMUDDIN IDRISI Khasra No. 104/11, situated in the revenue estate 🕏 🗲 At: Shop No-5 Aksherdham App Village Palam Rajapuri, Uttam Nagar, New Delhi-Sec-19 Pocket 3 Dwarka, New Delhi - 110075 110059 bounded on the East by Lane 10 feet 2. TARANUM IDRISI West by Portion of Plot North by Other's Plot At: HN-C-1/26 F/F Street No-5 Raja Puri South by Other's Plot Uttam Nagar, New Delhi - 110059

Date: 07/09/2023 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited



Chola Corporate Office: Chola Crest C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005. POSSESSION NOTICE

Under Rule 8 (1) WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited, under

the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that

the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an

amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges.

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale. NAME AND ADDRESS OF APPLICANT **DETAILS OF**

UTSTANDI) AMOUNT NO PROPERTY POSSESSED & LOAN ACCOUNT NUMBER [B] [C] [D] [E] Built Up Property Bearing No.E-160-A, Measuring 60 Sq.Yds., Out Of Khasra No.15 / 1 / 2, Situated In The Area Of Village- Matiala, Colony Known As Loan A/c No. X0HEELD00001718020, X0HEELD00001715710, Mansa Ram Park, In Block-E, Uttam Nagar, New Bounded As Under :- East : Road 8 X0HEDES00002008426 And X0HEDES00002352442) 8 5 20' Ft, North : Other's Plot, West : Other's Plot, 1. GEETA KATARIA

1 & 2 At: E-160, Mansha Ram Park, Uttam Nagar, D K Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 3. GEETA TUTION CENTER THROUGH ITS PROPRIETORSHIP At: E-160, Mansha Ram Park, Uttam Nagar, Mohan Garden, New Delhi- 110059

Loan A/c No. X0HEDEF00003367283 &

X0HEDEF00003225537) 1. LATE FAYANATH YADAV (Rep. By All Surviving Legal Heirs) 2. KAUSHALYA F @ KAUSHALYA

2. MANOJ KUMAR KATARIA

3. INDRAWATI @ INDRAWATI R

Residential House - All That Piece And Parcel Of Built Up Property No.11 (New No. E-11) Area Measuring 120 So Yds With All The Control of Measuring 120 So Y Measuring 120 Sq.Yds With All The Roof Rights Out Of Khasra No. 105/20 Situated To Revenue Estate Of Village Palam, Colony Known 🖹 🗸 As Rajapuri, E-Block, Uttam Nagar, New Delhi Which Is Bounded As Under :- East - Other's

South: Other's Plot

(THROUGH ITS AR/PROPRIETORS) All Above At: E-11, Rajapuri, Gali No.9, Uttam Nagar, New Delhi - 110059 ALSO AT: Shop No.31/16, Rights Pole No. U902, Village Matiyala, New Delhi - 110059.

Loan A/c No.

X0HEDEI00003143630) 1. Maninder Singh S/o Mangal

Singh Sardar (Applicant) At: B-59 B, Janta Colony, Shivaji Vihar, Raghubir Nagar, New Delhi - 110027

4. M/S YADAV ENGG. WORKS

(M) - 9313647908, email id-Manindermuzitone@gmail.com

All That Piece And Parcel Of Property Bearing No. B-59B Area Measuring 60 Sq.Yds With All Its Roof/Terrace Rights Situated In Janta Colony, Shivaji Vihar, Near Raghubir Nagar, New Delhi - 110027 With Free Hold Rights Of Land Under The Said Property Which Is Bounded As Under :- East - Part Of Property, West - Gali, North - Plot No. B-263, South - Plot No. B-27. B-261-A, Ground Floor, Janta Colony, Raghubir Nagar, New Delhi -

2. Gurinder Kaur D/o Manmohan Singh Bedi W/o Maninder Singh (Co_Applicant)

3. Balvinder Singh S/o Maninder Singh (Co_Applicant)

4. Muzitone (Through its AR/ Proprietors/Partners/Directors) (Co_Applicant) 2 to 4 At: B-59 B, Janta Colony, Shivaji Vihar, Raghubir Nagar, New Delhi - 110027 (M)-9313647908

B-261-A, Ground Floor, Janta Colony, Raghubir Nagar, New Delhi -

Loan A/c No. X0HEDET00003066789,

X0HEDET00003132622 and HE02DET00000002755) 1. JITENDRA KUMAR At: D-2/16, Gali No.2, Block -D

2. SAROJ BALA

Vashisht Park, New Delhi – 110046 At: D-2/16, Gali No.2, Block -D, Vashisht Park, New Delhi – 110046

All That Piece And Parcel Of Entire Second Floor Without Roof Rights Of Property Number Rz-34 (old Number), D-2/16 (new Number) Measuring 200 Sq.yds Out Of Khasra Number 24/4/2, Situated In He Area Of Village Dahri, New Colony Situated In He Area Of Village Dabri, Now Colony Known As Vashistha Park, New Delhi, Which Is Bounded As Under :- East :- Other's Property, West :- Other's Property, North :- Gali 10 10 Feet, South :- Road 20 Feet

3. JAY ENN ELECTRONICS THROUGH IT'S AR/DIRECTOR/PROPRIETORS/PARTNER At: F/F Kh. No. 23/16, 23/17 Shop at House No. 91 Pole No. 49, West Sagar Pur, New Delhi – 110046 4. SUPER TUNE ELECTRONICS THROUGH IT'S AR/DIRECTOR/PROPRIETORS/PARTNER

At: D-2/16, Vashisht Park, New Delhi – 110046 5. NITIN RAJPUT

At: D-2/16, Gali No.2, Block -D, Vashisht Park, New Delhi - 110046 Loan A/c No.

HE02DET00000003118 and X0HEDET00002738217) 1. Tilak R Anand 2. Geeta Anand

All That Piece And Parcel Of The Property
Municipal No. 458 Ward No.6 In Waka
Jaikampura (jaccum Pura), Gurgaon Chawani
With Hadud Committee Gurgaon, Haryana,
Which Is Bounded As Under: - East: - Property Of Manohar Singh And Hoshiyar Singh, West :-Property Of Surender Kumar And Gali, North :-Property Of Prabhu Lal And Gopal, South :- Road

Jaikampura, Gurgaon, Haryana-122001 Also At: 40, Block -F, South City-1 Gurgaon, Haryana – 122001 (M) – 9911100578 Also At: 1, Old Railway Road, Gurgaon, Haryana – 122001

Loan A/c No. X0HEDEF00001948882) 1. RANI BAJAJ (Applicant) 2. ROHIT BAJAJ (Co_Applicant)

3. M/S RANI FABRICS (Through Its AR/Proprietors/ Director/Partner) (Co_Applicant) All Above At: RZ-39-A, Gali No.6, Tughlakabad Extn. New Delhi - 110019 M - 9818035091

Also At: RZ-42/6, Tughlakabad Extn. New Delhi 110019 M - 09818035091 Date: 07/09/2023 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

New Delhi

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai Date: September 06,2023

Act 2013

The above is an extract of the detailed format of Consolidated Audited Financial Results for the year ended

the year ended March 31, 2023, are available on the stock exchange website (www.bseindia.com).

The statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules,

3. This ratio is not applicable since the Company has stopped repayment of borrowing and has not accrued /

paid interest on borrowing due to moratorium period post Oct 16, 2018 till March 31, 2023.

March 31, 2023, filed with the stock exchange under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The full format of Financials Results for the Consolidated Audited Financial Results for

2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 read with rule 3 of the Companies

On October 01, 2018, based on a petition by Union of India ("UOI"), the erstwhile Board of Directors

of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited (IL&FS) was suspended by the Hon'ble NCLT

and New Board of Directors was appointed. The First Board Meeting of Holding Company took place on

November 01, 2018. Accordingly in respect of the period prior to November 01, 2018, the Directors are

unable to and do not confirm the compliance with the requirements of the provisions of the Companies



Ritendra Bhattacharjee

Date: 07.09.2023

Place: New Delhi

3. Anand Sales Corporation

All At: Property No.458, Ward No.6,

Property, West - Other's Property, North - Road 15'ft Wide, South - Road 15'ft Wide

Property Bearing No. Rz-39-A/6
Admeasuring 55 Sq.Yds Out Of Khasra No.
412 Situated At Tughlakabad Extn , New
Delhi.

B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGÖ Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003. In the Matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rule, 2014 CAPITAL FEEDS PRIVATE LIMITED (CIN: U74899DL1992PTC050574) Companies (Management and Administration) Rules 2014 that the Register of Members and having its Registered Office at Khasra No. 626. Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 23rd September, 2023

Near Sambyhav Farms, Village Quaidpur Delhi-

"FROM INC-26"

Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement for change of registered office of the company from National Territory of Delhi to State of Punjab

Before the Central Government THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION,

Notice is hereby given to the General Public that he company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking approval of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 09th August, 2023 to enable the company

to change its Registered office from "The National Capital Territory of Delhi" to "The State Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest by an amount stating the nature of his her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within 14 (Fourteen) days of the

date of publication of this Notice with a copy to the applicant company at its Registered Office at

Registered office: Khasra No. 626, Near Sambyhav Farms, Village Quaidpur Delhi-110036, For and on behalf of

CAPITAL FEEDS PRIVATE LIMITED

Whole Time Director DIN: 00239114

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi-110006 Tel. No.: 011-23517516-19, Email: Id-cs@neccgroup.com, Website: www.neccgroup.com CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members. This is in reference to the Notice of Annual General Meeting dated August 25, 2023("AGN Notice") of North Eastern Carrying Corporation Limited ("the Company") to be held or Saturday, September 16, 2023 at 12.30 P.M. through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility, for seeking approval for matters contained in the said notice The said notice has been duly dispatched to the shareholders of the Company on August 25 2023 as per the applicable laws. The Company through this corrigendum wishes to bring to the notice of the Shareholders of the Company for Inclusion of Item No. 3 in the AGM Notice regarding revision in the remuneration of Mr. Utkarsh Jain, Whole-time Director of the Company along with the explanatory Statement.

All other particulars and details as mentioned in the AGM Notice shall remain unchanged. Th corrigendum shall be read in conjunction with the AGM Notice dated August 25, 2023 together with explanatory statement. This corrigendum is also available on the Company's website viz www.neccgroup.com, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com & or the website of National Stock Exchange of India Limited at www. nseindia.com where the shares of the Company are listed.

For North Eastern Carrying Corporation Limited

Place: Delhi Mamta Bish Date: September 06, 2023 Company Secretary & Compliance Office



पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 55-56, 5वीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 दूरभाष नं. : 022-61884700 ई-मेल : sys@pegasus-arc.com यूआरएल : www.pegasus-arc.com

ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परंतुक

के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री

रतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को सचना दी जाती है कि पेगासस ग्रुप थर्टी नाइन ट्रस्ट-1 (पेगासस) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत प्रतिभृत लेनदार पेगासस एसेटस रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एसाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 31.03.2021 के माध्यम से आरबीएल बैंक लिमिटेड ह्यारा नीचे उल्लिखित कर्जदार के बकायों की वसुली के लिए अधिकृत है। उपर्युक्त एसाइनमेंट अनुबंध के आलोक में नीचे उल्लिखित बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रतिभूत लेनदार पेगासस

एआरसी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 30.11.2021 को कर लिया गया है और इसकी बिक्री पेगासस एसेट्स रीकंस्टक्शन प्रा.लि. के मैसर्स श्री बालाजी लॉजिस्टक्स, स्वर्गीय श्री रतनलाल अग्रवाल (कानुनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से), श्रीमती कृष्णा गर्ग पत्नी स्वर्गीय स्तनलाल अग्रवाल और श्री सचिन कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय स्तनलाल अग्रवाल से 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार 06.09.2023 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं लागतों, प्रभारों तथा उस पर व्ययों सहित 10.09.2021 तक क. 41,51,328.80/-(रुपर्वे इकतालीस लाख इक्यावन हजार तीन सी अट्ठाईस एवं अस्सी पैसे मात्र) [05.09.2023 तक क. 67,88,870.33/- (रुपये सड़सट लाख अस्टासी हजार आठ सी सत्तर एवं तैतीस पैसे मात्र] की वसुली के लिए 29.09.2023 को "जहां है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। यदि कर्जदार/गारंटर प्रतिभृत संपत्ति की बिक्की से पहले किसी भी समय पेगासस को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ पेगासस की पूरी बकाया राशि का भूगतान करते हैं, तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 46,10,000/- (रुपए छियालीस लाख दस हजार मात्र) होगा और जमा धरोहर राशि 4,61,000/- (रुपए चार लाख इकसठ हजार मात्र) होगी।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
कर्जदार/गारंटर का नाम बकाया देवताएं	मैससं श्री बालाजी लॉजिस्टक्स स्वर्गीय श्री स्तनलाल अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी अग्रिमती कृष्णा गर्ग पत्नी स्वर्गीय स्तनलाल अग्रवाल 4. श्री सिंबन कृमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय स्तनलाल अग्रवाल 06.09.2023 से अनुबन्ध दर पर व्याज एवं लागतों, प्रभारों तथा उर पर व्यवों सिंहत 10.09.2021 तक रु. 41,51,328.80/- [05.09.202 तक रु. 67,88,870.33/- (रुपये सङ्सठ लाख अट्टासी हजार आठ स्सत्तर एवं तैतीस पैसे मात्र]
अचल सम्पत्ति का विवरणः	प्लॉट नं. ए-241/25, प्रथम तल, छत के अधिकार रहित, टीएचए, सेक्टर 7, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उ.प्र201011 पर स्थित आवासीय सम्पत्ति व समस्त भाग, माप 85.94 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्री रतनलाल अग्रवाल ए श्रीमती कृष्णा गर्ग, बिक्री विलेख नं. 24870 दिनांक 17.10.2011 के माध्य से पंजीकृत
आरक्षित मूल्य	ਓ. 46,10,000/−
जमा धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%)	ਓ. 4,61,000/~
चल सम्पत्ति का विवरणः	निल
सम्पत्ति के विरुद्ध दावे, यदि कोई हो, तथा प्रतिभृत लेनदार के संज्ञान में कोई अन्य बकाया एवं मूल्य	ज्ञात नहीं
सरसाई आईडी	200016106176
सम्पत्ति का निरीक्षण	25/09/2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. सम्पर्क व्यक्ति : श्री नितिन कश्यप (अधिकृत प्राधिकारी @8447636680 श्री सुरेन्द्र सिंह (8947960010)
बोली/संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि :	28/09/2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4:00 बजे अप. तक
संविदा खुलने की तिथि एवं स्थान	वेबसाइट (https://sarfaesi.auctiontiger.net) के माध्यम से ई नीलामी/बोली की तिथि 29/09/2023 को 11.00 बजे पूर्वा से 1.00 बजे अप

यह प्रकाशन प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत उपयंक्त कर्जदारों/जमानतियों को बिक्री विस्तृत नियम एवं ऋतौं के लिए प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट अर्थात http://www.pegasus-arc.com/assetsto-auction.html में प्रावधानित लिंक देखें। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी खेंबिदाएँ जमा करने से पूर्व सम्बन्धित

सम्पत्ति की ई-नीलामी/बिक्री के विस्तृत निवम एवं शतौं के लिए कृपमा प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट का सन्दर्भ लें। संविदाकार वेचसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net भी देख सकते हैं या सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्बोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑक्सन टाइगर से सम्पर्क कर सकते हैं, संविदा सहायता : 079-68136805/68136837, मोबाइल : +91 9978591888, ईं-मेल : ramprasad@auctiontiger.net तथा support@auction-

तिथि : 06.09.2023

(पेगासस ग्रुप धर्टी नाइन ट्रस्ट-1 के ट्रस्टी)

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजी. कार्या:: लोटस ग्रीन सिटी, सेक्टर 23 एवं 24, भिवाडी अलवर बाईपास, 75वाँ एमटीआर रोड धारूहेड़ा

रेवाडी हरियाणा 123401 भारत CIN: L24239HR1984PLC040797

फोन: +91-7419885077, ईमेल: newtimeinfra2010@gmail.com; वेबसाईट: www.newtimeinfra.in

पेगासस एसेट्स रीकस्ट्रवशन प्राडवेट लिमिटेड

39वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग की सूचना

एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम बुलाने के नोटिस में बताए गए अनुसार व्यवसाय निष्पादित करने के लिए न्यूटाइम इंफ्रास्ट्रक्वर लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार 30 सितंबर, 2023 को दोपहर 1.00 बजे (भा.मा.स.) लोटस ग्रीन सिटी सेक्टर 23 और 24, भिवाडी अलवर बाईपास 75 मीटर रोड धारूहेडा, रेवाडी 123401 पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों और सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 और उनसे संबंधित विभिन्न अन्य परिपत्र (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई. 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 (सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कंपनी ने बुधवार, 6 सितंबर, 2023 को वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, उन सदस्यों के पास भेजी है जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कंपनी या मिसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत है।

आगे, यथा संशोधित एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2015 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 तथा भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधान के अनुसार कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों ('रिमोट ई-वोटिंग') द्वारा 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम करने हेत सदस्यों को सविधा उपलब्ध कराने में प्रसन्नता का अनुभव करती है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ऑनलाइन मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान में उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने बैठक की तिथि से पर्व निर्धारित मतदान अवधि के दौरान इलेक्टॉनिक माध्यम से अपना मतदान पहले ही कर लिया है वे एजीएम की तिथि पर ऑनलाइन मतदान के पात्र नहीं होंगे। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए एजेंसी के रूप मे सिंटुल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (इसके पश्चात ''सीडीएसएल'' संदर्भित) की सेवाएं ग्रहण की हैं। अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण नीचे दिये गये हैं

रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 (9.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) को प्रारम्भ होगी और शुक्रवार, 29 सितम्बर 2023 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान हेत रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

- भौतिक प्रारूप या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य तथा ऐसा व्यक्ति जिसका नाग शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 की कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वे रिमोट ई–वोटिंग तथा इलेक्टॉनिक साधनों के माध्यम से एजीएम के दौरान मतदान की सविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे।
- कोई व्यक्ति जिसने शेयर अर्जित किया है और एजीएम की सचना भेजे जाने के उपरान्त किन्त 'कट-ऑफ तिथि' से पर्व सदस्य बन गया है, वह ई-वोटिंग हेत कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसुखदास मंन्दिर, नई दिल्ली-110062, दूरभाष : 011-29961281-83, ई-मेल investor@beetalfinancial.com से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले से ही पंजीकृत है तो वह ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
- इसके अलावा कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के साथ-साथ एजीएम के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान के लिए मैसर्स एएएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, एलएलपीआईएनः एएडी-2934) को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा। स्क्रुटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.newtimeinfra.in और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी www.bseindia.com पर रखे जाएंगे।
- जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में इसे पंजीकृत करें और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स. बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड
- को investor@beetalfinancial.com पर लिखें। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 कम्पनी की वेबसाइट www.newtimeinfra.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और साथ ही बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निदेशों के लिए, सदस्य 39वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में 'नोट्स' अनुभाग का
- जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लिया है वे भी वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दुश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु वे ऑनलाइन मतदान के माध्यम से दुबारा मतदान
- यदि आपके पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल

होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें न्यु इन्टाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए हस्ता./-

> राज सिंह पूनिया चेयरमैन एवं निदेशक डीआईएन : 09615705

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है ।

ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

से 29.09.2023 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 01/09/2023

दिनांकः 07.09.2023, स्थानः अजमेर

टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड

CIN: L67190DL1993PLC052050

पंजीकृत कार्यालय :- ए-2/3, तृतीय तल, लूसा टॉवर, आजादपुर,

दिल्ली-110033

फोन नंबर 011-27674181 | फैक्स नंबर +91-11-47619811

ईमेल आईडी: titansecurities@yahoo.com

31^{वां} वार्षिक आम बैठक,ई-वोटिंग सुविधा और बुक क्लोजर की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की **31^{वा} वार्षिक आम बैठक** कंपनी अधिनियम, 2013

के लागू प्रावधान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय

बोर्ड द्वोरा जारी किए गए परिपत्रों ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित के लागू नियम और विनियम के

अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल ("ओएवीएम") के माध्यम

से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थान पर सामान्य और विशेष व्यवसाय

को लेन-देन करने की सुविधा, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित किया गया है **शुक्रवार**,

29 सितम्बर 2023 बर्जे आयोजित की जाएगी। एजीएमें का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

एमसीए और सेबी के पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुसार, 31 एजीएम की सूचना, वर्ष 2023 की

वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जिसमें 31 मॉर्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित

वित्तीय विवरण ("वार्षिक रिपोर्ट") में है और अन्य अनिवार्य अनुलग्नक शामिल हैं ईमेल द्वारा

उन सदस्यों को भेज दिया गया है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्टार

और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं। एजीएम नोटिस वाली 31 वार्षिक रिपोर्ट कंपनी

की वेबसाइट www.titansecuritieslimited.com और BSE लिमिटेड की वेबसाइट यानी

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में किए जाने वाले कारोबार की मद से

संबंधित दस्तावेज एजीएम से पहले या उसके दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में लागू नियमों और विनियमों के साथ, सदस्यों को

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है और वे अपनी वेबसाइट

www.evotingindia.com के माध्यम् से सीडीएसएल सिस्टम् का उपयोग करके रिमोट ई

वोटिंग के माध्यम से एजीएम के प्रस्तावों पर वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग **मंगलवार**

26 सितंबर, 2023 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को

शाम 5:00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।मतदान की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर, 2023 है। कोई भी

व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि से पहले कंपनी का सदस्य बन जाता है, शेयर प्राप्त करने के बारे में

प्रासंगिक जानकारी दे सकता है और beetalrta@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन

चुंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, ऐसे सदस्य जो पात्र थे और

जिन्होंने पहले अपना वोट नहीं डाला था. एजीएम के दौरान वोट देने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों

ने पहले ही मतदान कर दिया है वे एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे लेकिन एजीएम के प्रस्तावों

पर फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त पूजी में प्रत्येक

शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के बराबर होंगे। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और

किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और

www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल के सहायता अनुभाग के तहत देख

सकते हैं। इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान की सविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश

दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं

मंजिल, मैराथन प्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकत नहीं हैं, वे

अपना ईमेल पता कंपनी या कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड

कंप्यूटर् सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ beetalrta@gmail.com पर पंजीकृत कर सकते

हैं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता

एजीएम के लिए सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर टांसफर बुक 23.09.2023 (शनिवार)

टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड के लिए

(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

बी9 बेवरेजेज लिमिटेड

(पूर्व की बी9 बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड)

सीआईएन: U80903DL2012PLC236595

पंजीकृत कार्यालयः परिसर संख्या 106, द्वितीय तल ब्लॉक एच, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

फोन: 011-49206600, ईमेल आईडी: Secretarial@bira91.com

11वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना, रिमोट

ई-वोटिंग की जानकारी

2020, 13 अप्रैल, 2020, 05, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14

दिसंबर, 2021, 05 **मई**, 2022 **और 28 दिसंबर**, 2022, सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र

संदर्भित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के सभी लागु प्रावधानों

और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में 11वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए

गए व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए बी9 बेवरेजेज लिमिटेड (पूर्व की बी9 बेवरेजेज

प्राइवेट लिमिटेड) की 11वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को

11वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस की इलेक्टॉनिक प्रति www.skvlinerta.com

पर उपलब्ध है और उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी

कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। यह सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा

और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट यानी

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय

वर्ष के लिए वित्तीय विवरण (इसके साथ आवश्यक रूप से संलग्न ऑडिटर रिपोर्ट या अन्य

दस्तावेजों सहित) उन सभी सदस्यों को नोटिस के साथ भेज दिया गया है जिनकी ई-मेल

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, समय-समय पर संशोधित कंपनी

(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वार

जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों

को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की

कट-ऑफ तिथि शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में

शेयर रखने वाले सदस्य सीएसडीएल की इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम

स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान ('रिमोट ई-वोटिंग') से एजीएम के नोटिस में निर्धारित

व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सुचित किया

क) रिमोट ई-वोटिंग के तहत या 11वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता

ख) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समयः मंगलवार, 26 सितंबर, 2023, सुबह 09:00

(ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की 28 सितंबर 2023 को शाम 05:00 बजे के बाव

घ) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी

का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 तक शेयर

रखता है, admin@skylinerta.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड

ङ) सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ई-वोटिंग प्रणाली के

माध्यम से 11वीं वार्षिक आम बैठक में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कृपया ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर

जाएं। कपया इलेक्टॉनिक वोटिंग से पहले 11वीं एजीएम के नोटिस के नोटस में दिए गए निर्देशों

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के

संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर

इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान की सविधा से जड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ

प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल,

मैराथन फ्यूचरैक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई

-400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com

बी९ बेवरेजेज लिमिटेड (पूर्व की बी९ बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड)

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

वरुण क्वात्र

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या ए२३०७७

Date: 06.09.2023

Place : New Delhi

पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

आर्दडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत हैं।

निर्धारित करने की अंतिम तिथि शनिवार 23 सितंबर, 2023 है।

अनमति नहीं दी जाएगी

को ध्यान से पढें।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 07.09.2023

आकांक्षा शर्मा

महिन्द्रा रुरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः—साधना हाउस, द्वितीय तल, 570 पी.बी. मार्ग वर्ली, मुम्बई-400018 दूरभाषः-022 66523500 फैक्सः 022 24972741 क्षेत्रीय कार्यालयः- तीसरी मॉनिल, प्लॉट नंबर 46-47, श्रीनाथ टॉवर, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर -302021, CIN:U65922MH2007PLC169791

कब्जा सूचना

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित

प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 के संख्यांक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत हित शक्तियों के प्रयोग में एक मांग पत्र निम्न ऋणीयों को उक्त सूचना पत्र,में वर्णित राशि सभी लागतो,खर्चो एवं व्ययों सहित भुगतान की वास्तविक दिनांक तक इस नोटिस की पावती के 60 दिन ाँ भुगतान हेतु जारी किया। उक्त ऋणीयों/सहऋणीयों द्वारा राशि के भुगतान करने में असफल रहने पर ऋणीयों/सहऋणीयों एवं जन सामान्य को एतद द्वारा सूचना−पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)धारा 13(4) के साथ सहपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसकी प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग मे एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य निम्नलिखित दिनांकों को ग्रहण कर लिया है। ऋणीयों को विशेषतया तथा जनसामान्य को सामान्यतया यह सचित किया जाता है वह उक्त सम्पत्तियों में लेनदेन ना करे तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी लेनदेन महिन्दा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्नलिखित सम्बन्धित राशि पर संबंधित दिनोक से उस पर भविष्य के ब्याज,लागतों एवं प्रभारों के अध्यधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता हैं। ऋणीयों/सह ऋणीयों/जमानतदारों अनुसूचित सम्पत्ति , बकाया राशि धारा 13 (2) के अन्तर्गत भेजे गये मांग पत्र के अनुसार और दावा राशि जिसके अनुसार कब्जे की दिनांक नीचे दी गयी है। क्र. ऋणी/सह—ऋणी/जमानतदार 13(2) नोटिस की दिनांक मौतिक कब्जे की बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण सं. का नाम/ऋण खाता संख्या एंव बकाया राशि दिनांक 13.02.2023 1. ऋणीः अमर चन्द पटटा संख्या 34 जो गांव- खोंडा, खोडा, ग्राम पंचायत-बबानी द्वारा जारी,

₹. 11,65,181/-पंचायत समिति–श्रीनगर, जिला–अजमेर, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 04/09/2023 सह-ऋणी : सायरी देवी (रूपये ग्यारह लाख पैंसठ LAN:XSEMAJM00710200 हजार एक सौ इक्यासी मात्र) सेठा राम का मकान, दक्षिणः लक्ष्मण का मकान 150 वर्ग गज एवं सीमाऐं:- पूर्वः हाब् का मकान, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः 22.08.2022 ऋणीः भागचन्द चौधरी पट्टा संख्या 25 जो पुस्तक संख्या – 68, संकल्प संख्या – 05, ग्राम पंचायत-柄. 7,85,956/-लल्लई द्वारा जारी, पंचायत समिति— अराई, जिला—अजमेर, राजस्थान में स्थित है | 05/09/2023 सह-ऋणी : पारसी रूपये सात लाख पिच्यासी जिसका क्षेत्रफल (106.00 वर्ग गज), सीमाएँ:– पूर्वः कैलाश/हराजी जाट की LAN:XSEMAJM00630437 हजार नौ सौ छप्पन मात्र) सम्पत्ति, पश्चिमः मंदिर श्री देव नारायण जी और आम रास्ता, उत्तरः अमराव/ रामनाथ जाट की सम्पत्ति, दक्षिणः भंवर लाल/ हंसराज की संपत्ति

VAISHNAVI INDUSTRIES LIMITED

इस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी), महिन्द्रा करल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Registered Office: 30, Rajokri Road, Kapashera, New Delhi-110037 **VOLUNTARY DELISTING OF EQUITY SHARES**

Be it known to all Shareholders and concerned persons that at request from Prompters of Vaishnavi Industries Ltd., CIN No. L74899DL1982PLC073814 with Registered office at Delhi, has called a Board Meeting of the company to be held on **September** 15, 2023 at Registered office of the company at 3.30 P.M. to consider the Material Event as to initiate process for securing Voluntary Delisting of 2,45,000 equity shares of Rs.. 10 each fully paid listed with Calcutta Stock Exchange, Kolkata. All Members and stock exchange have been sent individual notice

KAUL SONIA, MANAGING DIRECTOR September 07, 2023 DIN 052556422

फेडरल बैंक

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार एलसीआरडी नई दिल्ली डिविजन, यु.जी.एफ., फेंडरल टॉवर्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, पटेल रोड,

नई दिल्ली-110008 फोन नं. 011-40733977, 78, 79 एवं 80 ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईट: www.federalbank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने दि फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय

परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 03-03-2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता (1) श्रीमती रानी अरोड़ा पत्नी तथा विधिक उत्तराधिकारी स्व. सुखदेश कुमार अरोड़ा, निवासी : ७ / ९, पुराना राजिंदर नगर, दिल्ली—110060, (2) श्री अनुज अरोड़ा पुत्र विधिक | उत्तराधिकारी श्री सुखदेश कुमार अरोड़ा, निवासी : 7/9, पुराना राजिंदर नगर, दिल्ली-110060, (3) श्री वैभव घई पुत्र श्री बृज मोहन घई, निवासी : ईजी-1, इंदर पुरी, दिल्ली–110012, (4) श्रीमती श्वेता घई पत्नी श्री वैभव घई तथा स्व. सुखदेश कुमार अरोड़ा के विधिक उत्तराधिकारी, निवासी : ईजी-1, इंदर पुरी, दिल्ली-110012, (5) श्री अखिल चड्ढा पुत्र श्री रमेश चड्ढा, निवासी : फ्लैट नं. 89, पुष्पांजलि अपार्टमेंट्स, भूखंड सं. 10, सेक्टर-4, द्वारका, दिल्ली-110078, (6) श्रीमती गीतू चड्ढा पत्नी श्री साहिल चड्ढा तथा स्व. सुखदेश कुमार अरोड़ा के विधिक उत्तराधिकारी, निवासी : फ्लैट नं. ८९, पुष्पांजलि अपार्टमेंट्स, भूखंड सं. 10, सेक्टर-4, द्वारका, दिल्ली-110078 को, रु. 31,87,729.70/-(रुपये इकतीस लाख सत्तासी हजार सात सौ उनतीस एवं सत्तर पैसे मात्र) की एक राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा

ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चके हैं. अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ताओं एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 02 सितंबर 2023 को अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता / ओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों (प्रतिभृतिगत संपत्तियों) के मोचनार्थ

उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया

जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 33,10,230.70 / - (रुपये तैंतीस लाख दस हजार दो सौ तीस एवं सत्तर पैसे मात्र) की एक राशि और राशि पर नियत लागतों, शुल्कों एवं ब्याज हेत् दि फेडरल बैंक लि. के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

भूखंड सं. 9 के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्रथम तल पर अधिमापन 792 वर्ग फूट (88.1 वर्ग गज) तथा समतस्त अन्य सुधार जिसमें भूमि के नीचे मतें अविभाजित समानुपातिक स्वामित्वधारक अधिकार सम्मिलित हैं जो वहां पर विद्यमान उपमार्ग, सुधार तथा लाभों के अधिकारों के साथ, ब्लॉक ७ में समाविष्ट, ग्राम पूराना राजिंदर नगर, आसफ अली रोड, नई दिल्ली राज्य में स्थित, उप-जनपद के पंजीकरण के अंदर उप-पंजीयक ।।।, दिल्ली के कार्यालय के अंदर स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व– सड़क, पश्चिम- अन्य संपत्ति, उत्तर- गली तथा दक्षिण- गली।

दिनांक: 02.09.2023 सरफेसी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली (दि फेडरल बैंक लि.)

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

Regd. Off.: Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana E-mail: compliance.kimia@gmail.com Web: www.kimiabiosciences.com CIN: L24239HR1993PLC032120, Tel: 011-47063600, 91 9654206544 | +91 9654746544 Fax: 011-47063601/02

NOTICE OF THE 30™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

The 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kimia Biosciences Limited ("the Company") will be held on Saturday, September 30, 2023 at 03:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business, as set out in the Notice of the AGM. The notice of AGM and the standalone audited financial statements for the financial year 2022-23 along with the Board report, Auditors report and other documents required to be attached thereto, will be sent electronically to those members of the Company, whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participants/Depositories. The notice of AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company website at www.kimiabiosciences.com and on the BSE website www.bseindia.com

The documents referred to in the notice of AGM are available electronically for inspection by the members from the date of circulation of notice of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to compliance.kimia@gmail.com.

Remote e-voting and e-voting during AGM

The Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on solutions proposed to be passed at the AGM by electronic means (e-voting). Member may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below(remote e-voting). The Company has engaged the services of M/s. Beetal Financial and Computer Services Private Limited as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by

members holding shares in demateralised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail id has been provided in the notice of AGM. The manner in which (a) person who becomes member of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut-off date (mentioned herein); (b) Members who have forgotten the User ID and password can obtain/generate the User ID and password has also been provided in the notice of AGM. The remote e-voting will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting | 09:00 am (IST) on Wednesday, September 27,2023

End of remote e-voting 05:00 pm (IST) on Friday, September 29,2023 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote

e-voting module shall be forthwith disabled by Beetal upon expiry of aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically (insta poll) at the AGM. A person whose name is recorded in the register of Members as on the cut-off date, that is

Saturday, 23th September 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting through insta poll. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and

Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 24, 2023 to Saturday, September 30, 2023, (both days inclusive), for the 30th AGM for the financial year ended March 31, 2023. In case of any queries or issues regarding attending AGM or e-voting you may refer the

Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at designated email ID evoting@nsdl.co.in who will address the grievances related to electronic voting. By the Order of the Board of Directors

For Kimia Biosciences Limited

Lakshay Prakash **CFO & Company Secretary**

नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

(सीआईएन: L65993DL1970PLC146414) पंजीकृत कार्यालय : 28 नजफगढ़ रोड, मोती नगर इंडस्टियल एरिया, नई दिल्ली-110 015

फोन नंबर (011) 45021854, 45021812

शाखा कार्यालय : ओ. पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा फोन नंबर (01662) 222471-83

ई-मेल आईडी : investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

52वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई—वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की 52वीं

- वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन-शुक्रवार, 29 सितंबर 2023 को 11.30 बजे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजयल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों, कार्पीरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020.17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 03 / 2022 तथा 10 / 2022 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 14 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022 तथा 28 दिसम्बर, 2022 क्रमानुसार तथा अन्य संबद्ध सर्कुलर्स ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमावली 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कूलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई. 2022 तथा सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में की जाएगी, जिसमें सदस्यों का किसी उभय स्थान पर मौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2022-23 हेत् वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत् लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल है. ६ सितम्बर, २०२३ को ई—मेल द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा चकी हैं. जिनके ई-मेल कम्पनी / डिपाजिटरी पार्टिसिपैंटस के पास पंजीकृत है। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपरोक्त एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स द्वारा समाप्त कर दी गई है।

एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के अनुपालन में, 52वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष

- 22 सितम्बर, 2023 की कट ऑफ तिथि को भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि :
- एजीएम की सचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है :
- रिमोट ई-वोटिंग 26 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी :
- रिमोट ई-वोटिंग 28 सितम्बर, 2023 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) बंद होगी :
- रिमोट ई-वोटिंग सुविधा वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद लिंक इनटाइम द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद सदस्य को उसमें बाद में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :
- रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारण हेत् कट-ऑफ तिथि 22
- कोई व्यक्ति. जिसका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा पाने का हकदार होगा ;
- जो सदस्य रिमोट ई-बोटिंग से वोट कर चुके हैं वे एजीएम में ई-बोटिंग सुविधा पाने के हकदार
- viii) सदस्य रिमोट ई–वोटिंग से वोट कर चुके होने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु बैठक में दोबारा वोट डालने का हकदार नहीं होगा : कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा
- कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2023 को शेयर धारक है, वह swapann@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिये वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। ई-वोटिंग से संबंधित पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण https:/instavote.
- linkintime.co.in के हेल्प सेक्शन का संदर्भ लें या श्री स्वपन कुमार नसकार, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एवं हेड (उत्तर भारत), लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नंबर एनएच2 सी1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 से कॉन्टैक्ट नंबर (011)-41410592/93/94 (ई-मेल swapann@ linkintime.co.in) पर या कम्पनी से सम्पर्क करें।
- सदस्यगण जो कि भौतिक रूप में अंशों का धारण किए हुए हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पतों को कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है और जो 52वीं एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोट तथा / अथवा ई-वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 52वीं एजीएम से जुड़ने हेतु लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे अब कम्पनी के साथ अपने ई–मेल पतों का पंजीकरण करा सकते हैं। इस उददेश्य हेत वे अपनी ई–मेल तथा केवाईसी विवरण अद्यतन करवाने के लिए प्रपन्न आईएसआर-1 उसमें विनिर्दिष्ट विवरण / वांछित दस्तावेज (कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर उपलब्ध) युक्त अनुरोध पत्र कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड को भेज सकते हैं। सदस्यगण जो कि अभौतिक रूप में अंशों का धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि वे केवल अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत कर लें।
- एजीएम की सचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर तथा लिंक इनटाइम की वेबसाइट https:/instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।
- xiii) निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग का संचालन करने के लिए कंपनी ने मेसर्स राजेश गर्ग ऐंड कम्पनी, के राजेश गर्ग अभ्यासत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
- सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तक बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 से ब्रहरपतिवार, 21 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सहित) तक एजीएम उद्देश्य से बंद रहेंगी।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.nalwasons.com</u> और स्टाक एक्सचेंजों की वेबसाईटों, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात <u>www.nseindia.com</u> और <u>www.bselndia.com</u> पर भी उपलब्ध है । कते नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

तिथि : 06 सितम्बर, 2023

स्थान : हिसार

(अजय मित्तल) कंपनी सचिव

साई कैपिटल लिमिटेड (सीआईएन: L74110DL1995PLC069787)

पंजीकृत कार्यालयः जी-25, ग्राउंड फ्लोर, रसविलास साल्कॉन डी-1, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली -1100171 फोन: 011-40234681 ईमेलः cs@saicapital.co.in | वेबसाइटः www.saicapital.co.in

28वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सुचना रतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि:

'एमसीए परिपत्र' के संदर्भ में एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:30 बजे भा.मा.स. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सेबी और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के

साथ एजीएम की सुचना, अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग निर्देश और क्रेडेंशियल्स सहित, सितंबर, 2023 को केवल ई-मेल के माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी गई है जिनकी ईमेल आईडी आरटीए/कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.saicapital.co.in से और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सचीबद्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)

नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट किसी भी या सभी व्यवसायों पर रिमोट ई-वोटिंग का उपयोग करके मतदान करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा उन सदस्यों को प्रदान की जा रही है जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। वीसी/ओएवीएम और रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से बैठक

में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश एजीएम के नोटिस में उल्लिखित हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत और समाप्ति की तारीख और समयः प्रारंभः **मंगलवार, 26 सितंबर, 2023** (०९:०० पूर्वाह्न भा.मा.स.) समाप्तः गुरुवार, २८ सितंबर, २०२३ (०५:०० अपराह्न भा.मा.स.) इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल

रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे भा.मा.स. के बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान

हो जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन दोबारा मतदान नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है, और कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है, वह

evoting@nsdl.co.in पर या आरटीए, मेसर्स अलंकिट असाइनमेंट्स लिमिटेड को info@alankit.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और एजीएम के नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करके मतदान कर सकता है। ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत सदस्य वोट करने के लिए अपने मौजूदा यजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए स्क्रुटिनाइजर

के रूप में कार्य करने के लिए सश्री रश्मी साहनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एसीएस 25681; सीपी संख्या: 10493) को नियुक्त किया है। संवीक्षक बैठक के समापन के 2 कार्य दिवसों के अंदर, पक्ष में डाले गए कुल मतों की एक संवीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, तुरंत कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकत किसी व्यक्ति को प्रस्तत करेगा और उसके बाद अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार

और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को atinfo@alankit.com पर फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करके एक हस्ताक्षरित अनुरोध भेजकर इसे पंजीकृत करें। (डीपी) से संपर्क किया जा सकता है।

डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए, ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 10. किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देखें या टोल फ्री नंबरः 18001020990/1800224430 पर कॉल करें। या श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013, निर्दिष्ट

ई-मेल आईडीः evoting@nsdl.co.in या AmitV@nsdl.co.in य pallavid@nsdl.co.in अनुरोध भेजें, या टेलीफोन नंबर परः +91-22-24994360 या +91-99202 64780 या +91-22-24994545 पर संपर्क करें। इसके अलावा, सदस्य कंपनी के आरटीए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से info@alankit.com पर या टेलीफोन नंबर 01142541234/23541234 से भी संपर्क कर सकते हैं। ।. बुक क्लोजर

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91

के प्रावधानों और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 10 के अनुसार, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स वित्तीय वर्ष 2022-23 के एजीएम के उद्देश्य से **शनिवार**, 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर,2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी। बोर्ड के आदेश से

साई कैपिटल लिमिटेड डॉ. नीरज कुमार सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक: 06/09/2023 स्थानः नई दिल्ली डीआईएन: 00233396

www.readwhere.com

संदर्भ ले सकते हैं।

स्थान : हरियाणा

तिथि : 07.09.2023

CIN: L51909DL1984PLC019485

"IMPORTANT"

any manner whatsoever.